

FDA की फरीदाबाद और सोनीपत में छापाकारी: नकली कॉस्मेटिक्स बनाने की फैक्ट्री मिली; दो लोग गिरफ्तार, कुल 50 लाख का माल बरामद



दैनिक भास्कर

फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की टीम ने फरीदाबाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नकली उत्पादों को तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर सोनीपत में एफडीए की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही गतिविधियों को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि मकान नंबर- 634, सेक्टर-62, फरीदाबाद में बिना लाइसेंस कॉस्मेटिक बनाने की फैक्ट्री चल रही है।

विभाग के आयुक्त बजीर सिंह गोयत ने एक टीम का गठन किया, जिसमें करण गोदारा, एसडीसीओ और संदीप गहलान, डीसीओ को शामिल किया गया। टीम ने मौके पर दबिश दी और तलाशी के दौरान पाया कि वहां बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कई उत्पादों के प्रसिद्ध ब्रांड जैसे कि 'लैकमे' व 'फिटमे' इत्यादि का अवैध तौर पर नकली उत्पादन किया जा रहा है। एफडीए टीम ने मौके पर पुलिस को बुलाया और हिन्दुस्तान यूनिलीवर कंपनी के प्रतिनिधि को भी पहचान के लिए बुलाया गया। मौके पर आए कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि यहां बनाए जा रहे या बन चुके उत्पाद नकली हैं और उनकी कंपनी द्वारा इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री मालिक को अधिकृत नहीं किया गया है।

ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स के नमूने जांच के लिए भेजे

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तलाशी के दौरान तैयार उत्पादों में 'लैकमे' और 'फिटमे' ब्रांड्स के 16 कॉस्मेटिक्स के नमूने जांच हेतु लिए गए और टीम ने अन्य प्रकार के 16 तैयार उत्पाद भी अपने कब्जे में लिए। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एवम् ऐरो फार्मा सिलवासा कंपनी के लेबल लगी खाली बोतलें, कार्टन्स, ट्यूबस इत्यादि बरामद किए, जिनकी मदद से नकली कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं।

30 लाख का कच्चा माल बरामद

एफडीए व पुलिस की टीम ने जो उत्पाद कब्जे में लिए हैं, उनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए तथा जो खाली बोतलें, ट्यूब्स, लेबल्स इत्यादि बरामद किए हैं, उनकी मदद से 30 लाख रुपए के नकली कॉस्मेटिक्स उत्पाद बनाए जा सकते हैं। विभाग द्वारा नमूनों को जांच हेतु भेजा जा रहा है तथा बरामद माल की न्यायालय से कस्टडी ली जाएगी।

फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज

टीम ने थाना आदर्शनगर, फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज करवाई है और फैक्ट्री के एक पार्टनर अमित मित्तल व मैनेजर नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस नकली फैक्ट्री को दो भाई अमित मित्तल एवम् विपुल मित्तल चलाते हैं। जांच के दौरान पता चला कि इनकी मित्तल कॉस्मेटिक्स के नाम से दुकान नंबर 5407, रुई मंडी, सदर बाजार, दिल्ली में है, जिसके माध्यम से फरीदाबाद में बनाए जाने वाले नकली उत्पाद बेचे जाते हैं। इसकी सूचना हरियाणा एफडीए के राज्य औषधि नियन्त्रक मनमोहन तनेजा ने दिल्ली राज्य के औषधि विभाग एवम् महाऔषधि नियन्त्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/haryana/news/fake-cosmetics-factory-found-two-arrested-goods-worth-50-lakhs-recovered-129639738.html>